#### NAM SECURITIES LTD

Regd. Office: 213, Arunachal, 19 Barakhamba Road, New Delhi-110001, Phone: 011-23731122, 23731144 Fax: 011-23730810 Email: nammf@yahoo.com

#### September 07, 2024

To, The Listing Department Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai - 400001

BSE Scrip Code: 538395

Dear Sir,

In Compliance of provisions of Regulation 42 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies of Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 07<sup>th</sup> September, 2024 in which notice for intimation of Annual General Meeting (schedule for 30.09.2024) and book closure (24.09.2024 to 30.09.2024), cut-off date for e-voting (23.09.2024) details regarding e-voting period have been published.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours Faithfully

For: NAM SECURITIES LIMITED

(Neha Gupta) Company Secretary FINANCIAL EXPRESS

# Andhra Pradesh, Telangana to get ₹3,448-cr flood relief

SANDIP DAS New Delhi, September 6

THE AGRICULTURE MINIS-**TER** Shivraj Singh Chouhan on Friday announced immediate financial assistance of ₹3,448 crore from the state disaster response fund (SDRF) to Andhra Pradesh and Telangana for mitigating the impact of floods in the states.

"Work is being done to provide immediate assistance from SDRF which is already with States which also includes the Centre's share," Chouhan said after visiting the floodsaffected areas of Andhra Pradesh and Telangana.

After providing immediate financial assistance, the government will think about making available fertilisers and seeds to farmers for the next crop, he said.

Chouhan visited floodaffected Khamman district of Telangana on Friday for assessing the damages. Chouhan said that steps will be taken to ensure that farmers impacted get benefit of crop insurance and help them in taking up the next crop.

"The entire crops of the farmers - banana, turmeric and vegetables have been destroyed," he said according to an official statement. He said, "we will ask the banks not to recover loans from farmers

**EXPRESS NEWS SERVICE** 

New Delhi, September 6

PARIS 2024 MIGHT not go

down as India's best-ever

Olympics. Yet, it was historic no

less. For the first time in the

100-plus years of the country

sending its athletes to the

biggest sporting event, India

had a multiple-medal winner

who pulled off the previously-

unthinkable feat, Manu

Bhaker, will be the guest at the

Express Adda in New Delhi.

Joining the 22-year-old will be

world champion, Tokyo Olympics bronze winner and

Asian Games medallist boxer

Lovlina Borgohain, a trail-

blazer in her own right. They

will be in conversation with

Mihir Vasavda, Deputy Associ-

ate Editor, The Indian Express,

who has covered three

Olympics apart from three

Commonwealth Games and

the centre of a change in

Indian sport, becoming two of

the faces of the rising women

power not just in their disci-

pline but the whole ecosystem.

Lovlina – inspired by Moham-

mad Ali – ensured India's

return to the Olympic podium

in boxing after a barren Rio

Games. In doing so, the 26-

year-old became only the sec-

ond Indian woman to win a

boxing medal after the leg-

strength-to-strength in the

years that followed, despite

being forced to change her

weight category due to the

rules of the international fed-

eration. She became a world

champion on home soil last

year and followed it up with a

silver medal at the Asian

Games in China. At the Paris

Lovlina went from

endary M C Mary Kom.

Three years ago in Tokyo,

The athletes have been at

two Asian Games.

On Saturday, the athlete

at a single Olympics.



Union agriculture minister Shivraj Singh Chouhan interacts with locals as he takes stock of the crop damage caused by floods, in Khammam (Telangana) on Friday

in times of crisis."

While overall monsoon across the country till Friday has been 7.8% above the benchmark - long period average (LPA) or in the above normal range, Andhra Pradesh and Telangana have received 42% and 39% rainfall above the LPA respectively.

On Thursday, Chouhan stated that the initial estimate indicated that floods in Vijayawada district of Andhra Pradesh had impacted 0.18 million hectare of agricultural land and 0.2 million farmers. The home ministry has sent a national disaster response

Bhaker, Lovlina guests at Adda today

Shooter Manu Bhaker and boxer Lovlina Borgohain

force (NDRF) team to assess the damage in the state.

Meanwhile a home ministry official said that the Centre has been extending all the requisite and timely assistance to Andhra Pradesh and Telangana for flood relief and rescue efforts and an inter-ministerial central team will soon visit the affected areas in both the states.

The finance ministry has directed public sector insurance companies to provide full support to people affected by the floods in the two states.

Meanwhile, Sonal Badhan, Economist, Bank of Baroda stated as sowing of kharif crops including paddy, pulses, oilseeds, cotton and sugarcane is almost complete, "harvesting of crops will be critical. Excess or large excess of rainfall or deficient rainfall can be damaging for sown crops".

At 108.7 million hectare (MH) close to normal sown area of 109.58 MH in the season, the combined sown area of key crops - paddy, pulses, oilseeds, coarse cereals, cotton and sugarcane — was up 1.9% on year, according to latest data by the agriculture ministry earlier this week.

RELIGARE

The Indian EXPRESS

Co-presented by

— Hospitality Partner

 $\mathscr{L}_e$  MERIDIEN

# Kerala tops ease of doing biz rankings

**FE BUREAU** 

Andhra Pradesh and Gujarat, were ranked as top performers by the Centre under the Business Reforms Action Plan (BRAP) for promoting ease of doing business,

state has helped it in achieving this status.

Kerala has come first in the ranking of the Union Ministry of Commerce and Industry with top achiever status in nine sectors, Vijayan said.

"Proud that Kerala has come first in Ease of Doing Business reforms in the country, with Top Achiever status in 9 reform areas!

"Our investment friendly ecosystem and entrepreneurs' growing confidence in Kerala's potential has truly been captured. This is a time like no other to invest in and grow from #Ker-



Kerala CM **Pinaravi Viiavan** said investment friendly ecosystem and growing confidence of entrepreneurs has has helped the state in achieving this status

ala,"Vijayan posted on 'X'.

The chief minister also pointed out that the state ranked first this year from the 28th position in 2021. Kerala has reached 15th position in 2022. Industries minister P Rajeeve said out of 30 reform areas, Kerala earned top achiever status in nine categories, surpassing Andhra Pradesh, which secured second place with five categories.

(With PTI inputs)

### Water reservoirs at 81% of capacity, 24 full

'ABOVE NORMAL'

**RAINFALL** in the current monsoon season has rapidly replenished the country's 150 major wate reservoirs over the last few weeks, and 81% of their aggregate capacity is now filled.

For the last five weeks, these dams' water levels were above the year-ago marks. On Friday, the water levels were up 31% on year, compared with 24% a week ago. The

ten-year average. At present, 25 dams are filled to their capacity, of which 16 are located in the western region comprising Gujarat, Maharashtra and Goa. 46 reservoirs are filled up to 90% of their capacity.

reservoir levels now are

also 18% above the last-

Only the reservoirs in the north (11 of them) have water levels below last year (-18%) and last 10 year average (-16%).



East West South All India Regions Source: CWC, as on Sept 5, 2024

### UPSIDA to pave way for industrial growth

**FE BUREAU** 

THE UTTAR PRADESH State Industrial Development Authority (UPSIDA) is addressing all facets of industrial development in the state, paving the way for innovation, growth and opportunity.

The Ex – LIDA Master Plan 2041 will boost industrial growth and development in the region. It has seamlessly integrated the ongoing state level transportation infrastructure projects such as Kanpur Lucknow Express way, Ganga Expressway and Lucknow Ring Road with the existing NH – 27.

The Lucknow-Kanpur national highway, a

-Central Region) is poised to serve as a countermagnet to major urban centres like Delhi-NCR, attracting private investment and generating a significant multiplier effect for the surrounding hinterland.

### Branch Office: 3rd Floor, GS-Trade Centre, 534-536, Nemi Sagar Colony, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

13.08.2024

Eighty Paisa Only) as

on 19.08.2024

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

**DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF THE SARFAESI ACT - 2002** 

You the below mentioned borrower has availed loan by mortgaging the schedule mentioned property and you the below mention has

stood as borrower / Co - borrower /Mortgagor for the loan agreement. Consequent to the default committed by you, your loan Security Interest Act, 2002 (in short SARFAESI Act). We **Aditya Birla Finance Limited** has issued Demand Notice u/s 13(2) read wit section 13(13) of the SARFAESI Act to the address furnished by you. The contents of the said notices are that you had committe default in payment of the verious loans sanctioned to you. Therefore, the present publication carried out to serve the notice as per th provision of Section 13(2) of SARFAESI Act and in terms of provision to the rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Amount due as per Loan Account No./ Name and Address of the account Borrower(s), Co-Borrower(s) & Guarantor(s) **Demand Notice** Loan Account No. - ABFLKTALAP0000090125. 1. Mrs. Shashi Vijay (Co-borrower and Rs. 35,48,866.80 Legal Heir of Deceased borrower Ramdayal Vijay), 2. Mr. Pawan Vijay (Legal Heir of (Rupees Thirty-Five 27.08.2024 Deceased Borrower Ramdayal Vijay), **3. Mr. Jitendra Vijay** (Co-borrower and Legal Heir o Lakhs Forty Éight Deceased Borrower Ramdayal Vijay)**, 4.Mr. Brijesh Vijay** (Legal Heir of Deceased **Thousand Eight NPA Date** Borrower Ramdayal Vijay), **5. Mr. Sandeep Vijay** (Legal Heir of Deceased Borrower undred Sixty Six and

"DETAILS OF SECURED ASSETS TO BE ENFORCED" All that piece and parcel of: Danmal Ji Ka Ahata, Bhimganjmandi, Kota, Rajasthan 324002. East: Road 15 feet, West: Street 5 feet connecting Katla Seth JI, North: House Gajanand Ji Kalal, South: House Vidhya Tiwari

You are hereby called upon to pay **Aditya Birla Finance Limited** within the period of 60 days from the date of publication of thi Notice the aforesaid amount with interest and cost failing which Aditya Birla Finance Limited will take necessary action under th Provisions of the said Act against all or any one or more of the secured assets including taking possession of secured assets of the borrower / Co - borrower / Mortgagor. The power available to the **Aditya Birla Finance Limited** under the said act include (1 Power to take possession of the secured assets of the borrower / Co - borrower / Mortgagor including the rights to transfer by way o lease, assignment of sale for releasing secured assets (2) Take over management of the secured assets including rights to transfer by ways of lease, assignment or sale and realize the secured assets and any transfer as of secured assets by Aditya Birla Finance **Limited** shall vest in all the rights and relation to the secured assets transferred as if the transfer has been made by you. In terms of the Provisions of the Section 13/13) of the said act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the normal course of your business), any of the secured assets as referred to above and hypothecated mortgaged to the **Aditya Birla Finance Limited** without prior wriften consent of the **Aditya Birla Finance Limited.** Date: 07.09.2024, Place: Kota

Authorised Officer, Aditya Birla Finance Limited

H F L NANGAL UNIT, NAYA NANGAL (PUNJAB) 140 126 NOTICE INVITING TENDER Ref. No.: NFN/2024-25/CPO/(Prod-Bagging)/186

NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

Online bids in two part bid system are invited for the following

Work Description: Contract for Internal Handling of Fertilizers Cleaning, De-scaling & Miscellaneous Jobs in Bagging Plant (1&II) for the year 2024-25

EMD: Rs 100000.00

Ramdayal Vijay), **6. Mr. Tarun Vijay** (Legal Heir of Deceased Borrower Ramdayal Vijay), **All** 

**Residing at -** 123, Danmal Ji Ka Ahata, Bhimganjmandi, Rangpur, Kota, rajasthan-324002

Estimated Cost of Work: Rs.505.35 lacs

Last date & time of online submission / opening of tenders: 24.09.2024 upto 15:00 hrs / 24.09.2024 at 15:30 hrs. or further details, visit our Website: www.nationalfertilizers.com

https://etenders.gov.in/eprocure/app, https://gem.gov.in Tenderers are advised to visit our website regularly. Any amendmen corrigendum to the above NIT will be displayed on aforesaid Chief Manager (Production)



INDRAPRASTHA GAS LIMITED Regd. Office: IGL Bhawan, Plot no. 4, Community Centre Sector-9, R. K. Puram, New Delhi-110 022,

Phone: 46074607 E-mail: investors@igl.co.in Website: www.iglonline.net CIN: L23201DL1998PLC097614 NOTICE

(For Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account)

This NOTICE is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ('IEPF Rules' notified by the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 7" September 2016. The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor

In terms of the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the aforesaid IEPF Rules, the Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account for taking appropriate action.

Education and protection Fund (IEPF) Account.

Further, a list of shareholders whose dividend(s) are not encashed and shares due for transfer to IEPF Authority/ Account is displayed on the website at www.iglonline.net. Members are requested to claim the Final Dividend declared for the Financial Year 2016-17 and subsequent years'

dividend before the same is transferred to IEPF. The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Account, may note that the

Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate (s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Account as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Account pursuant to the Rules. In case the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, M/s Kfin Technologies Limited (RTA), does not receive any communication from the concerned shareholders by October 18, 2024 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements as set out in the IEPF Rules, transfer the shares to IEPF Account by the due date as per procedure stipulated in the Rules and no claim shall thereafter lie against the Company. It may be noted that the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IEPF, including all benefits accruing thereafter, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent at: Kfin Technologies Limited, (Unit: Indraprastha Gas Limited) Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032; Tel No.: 1-800-309-4001; Email: einward.ris@kfintech.com.

Date: September 06, 2024

Place: New Delhi

for Indraprastha Gas Limited

S. K. Jain (Company Secretary)

New Delhi, September 6 KERALA, FOLLOWED BY

according to the commerce and industry ministry. Commenting on the development, chief minister Pinarayi Vijayan on Friday said the investment friendly ecosystem and entrepreneurs' growing confidence in the

New Delhi, September 6

stretch of approximately 80 km is emerging as one of the fastest-growing economic corridors in Uttar Pradesh.

The development of the Lucknow-SCR (State

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Asaf Ali Road Branch; 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi Phone: 011-23237020, 23215377 E-mail: d0435@psb.co.in

Punjab & Sind Bank

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 12-06-2024 calling upon the Borrowers/Guarantors Sh. Himanshu Kalia (Borrower), Smt. Twinkle Kalia (Borrower) all are resident of Flat no. 80, First Floor, Vasdev Nagar, Andha Mughal, Delhi-110007 and Sh. Ashok Kumar (Guarantor) resident of House No. 48 C, Ram Dutt Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-110059 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.8,89,659.84 (Rs. Eight Lakh Eighty Nine Thousand Six Hundred Fifty Nine rupees and Eighty Four Paisa only) as on 30-09-2023 within 60 days from the date of receipt of the said notice with interest and other charges.

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on nim/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on **05.09.2024**. The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the Property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for an amount of Rs.8,89,659.84 as on date 30-09-2023 and interest thereon stated above along with other charges.

The above borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given

\*\*\*\*DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY\*\*\*\* PLACE:--Built up Property No. Flat No. – 80, First Floor with roof rights, built on an area measuring 286sq.ft i.e 27.00 sq.mtrs. approx., charged 50:50GF & FF Vasdev Nagar

Andha Mughal, Delhi-110007. Property Bounded as under North-Road, South- Road, East-Flat No.77, West-Road Measurement: - 27.00 Sq. Mtrs.

Property owned by:- Himanshu Kalia and Twinkle Kalia Date: 05.09.2024, Place: New Delhi **Authorized Officer, Punjab & Sind Bank** 

the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993

Exh No. 23774 STATE BANK OF INDIA VS M/S EXCEL CONSULTANCY AND OTHERS

(2) Gauray Khanna S/o Sh Krishan Lal Khana Proprietor M/s Excel Consultancy, Unit

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are 1. to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for

should not be granted; 2. to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified

you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

4. you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or

proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 26/11/2024 at 10:30A.M. failing which the

Signature of the officer Authorised to issue summons

#### Cost of Tender Document Date & Time of Submission of Tender 30-09-2024 (upto 17.00 Hrs) Date & Time of Opening of Tender 01-10-2024 (at 15.00 Hrs) tender, if any, will be published on website www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL and

(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government Northern Region In the matter of sub section (4) of section 13 of the

companies Act, 2013 and dause (A) of sub-rule (5) of

rule 30 of the companies (Incorporation) Rules, 2014

Form No. INC 26

In the matter of Agora Labs India Private Limited ('Applicant Company') having its registered office at H-63, Vijay Chowk Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-Notice is hereby given to the General Public that the Applicant Company proposes to make application to the

Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration. of Memorandum of Association of the Applicant Company in terms of special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 06" day of September, 2024, to enable the Applicant Company to change its Registered Office from National Capital Territory of Delhi to the State of Karnataka from one state to another Delhi & Kametaka.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Applicant Company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director, Northern Region at B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen (14) days

M/s Agora Labs India Private Limited


For and on behalf of Agora Labs India Pvt. Ltd. Place : Delhi Ginikal Krishnappa Pramoda Date: 06/09/2024 Director (DIN: 10480260)

Add: 117 Cross Srinivas Reddy Layout.

Bangalore North, Karnataka

of the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address.

H-63, Vijay Chowk Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-





If Lovlina won a medal in Tokyo and could not in Paris, it was the other way round for Manu. The Tokyo Olympics for her ended in tears. Back then, Manu competed in the three events — 10m air pistol, 25m pistol and 10m air pistol mixed team. However, the shooter could not qualify for the final in any of the events.

Heading into the Paris Games, her coach Jaspal Rana vouched that the preparation had been better and she had "matured" as a shooter. That was seen on the shooting ranges of Chateauroux, some just reached the final of all her events, but she showed it is possible to win not one but two medals in a single campaign. With some luck, it could have been an unprecedented hat-trick.

Out of the six medals India won, Manu was responsible for two – both bronze, in the 10m air pistol and 10m air pistol mixed team, along with Sarabjot Singh.

As India's athletes put the Paris Games beyond them and shift their focus to the Los Angeles Olympics in 2028, Manu and Lovlina will remain

the favourites to return to the भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

Phone No.: 011-41222500

(Neha Gupta)

Company Secretary

एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) कॉनकॉर CONCOR SIC New MDBP Building, 2nd Floor, Okhia Indi. Estate (Opp. NSIC Okhia Metro Station), New Dehi-110020 NOTICE INVITING E- TENDER CONCOR invites E-Tender in Single Packet System of tendering for the following work: CON/EP/A-III/Eoff-6832/T-3/Track work at ICD-WFD 2024 Name of Work Renovation of turn-outs and approach track at ICD-WFD Estimated Cost ₹198.93 lakhs (including GST) 08 Months (Eight Months) Completion Period Earnest Money Deposit ₹2,49,470/-Tender Processing Fee (Non-refundable) ₹3,540/- (Inclusive all taxes & duties through e-payment) 07-09-2024 (from 15:00 Hrs) to 28-09-2024 (up to 17:00 Hrs) For financial eligibility criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.co.in., but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderwizard.com/CCIL only. Further, Corrigendum/Addendum to this

CPP Portal only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same. GG M (P&S) /Area-III

NAM SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC350531 Regd. Off: 213, ARUNACHAL BUILDING, 19, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001 Ph. 011-23731122, E-mail: compliance@namsecurities.in

Notice is hereby given that 30" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2024 at 10:30AM, at Kiran Farms, W-10D, Western Avenue, Sainik Farms, New Delhi 110062 to transact the business contained in the Notice of the said AGM. In terms of Sections 101 and 136 of the Companies Ac; 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice & Annual Report for the year 2023-24 have been sent through electronic mode by the Company to those shareholders who have registered their email-ids with the Depositories of the company and the same is also made available on the Company's website at www.namsecurities.in. Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members &

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Share Transfer Books shall remain closed from 24.09.2024 to 30.09.2024 (both days inclusive) in view of AGM of the Company. Notice is also given that the Company is providing e-voting facility. In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and regulation 44

of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of NSDL as the Authorized agency. The remote E-voting facility shall commence on September 27, 2024 at 10.00 A.M.(IST) and ends on September 29, 2024 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting system shall be disabled thereafter. The Record date for the purpose of e- voting is

Members may use e-voting facility during e-voting period by using User ID and Password which

September 23, 2024.

Place: New Delhi

Date: 06.09.2024

will be intimated separately to their registered email ID/Address. For any clarifications on evoting, members may contact RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at 3" Floor 99" Madangir, behind local shopping center, New Delhi-110062 Tel-011-29961281/83 For: Nam Securities Limited

300 km from Paris. Manu not The Express Adda is a series of informal interactions organised by The Indian Express Group and features those at the centre of change. Previous guests at the Adda include External Affairs Minister S Jaishankar, Tata Sons Chairman N Chandrasekaran, Olympic gold medallist javelin thrower Neeraj Chopra, cricket icons Virat Kohli, Rohit Sharma

Wellness Partner

**U.P. STOCK AND CAPITAL LIMITED** CIN: U67120UP1979PLC004876 'PADAM TOWERS', 14/113, CIVIL LINES, KANPUR - 208 001 Mob. No.: 8004939128 Email: upstockcl@gmail.com

and Jasprit Bumrah and chess

legend Viswanathan Anand.

NOTICE

Website: www.upstockcl.in

NOTICE is hereby given that the 44" Annua General Meeting of the Members of U.F. Stock and Capital Limited will be held or Monday, the 30" September, 2024, a 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at 'Padam Towers' 14/113, Civi Lines, Kanpur- 208001 – U.P. to transact the alongwith the Annual Report (available at www.upstockcl.in) is being sent to Members of the Company individually who have registered their e-Mail ID with the Depository Participants/ Company through e-Mail & to other members in physical mode. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 23" September, 2024 to Monday, the 30" September, 2024 (both days inclusive) and that the dividend, declared by the Members for the Financia year 2023-24 at the aforesaid Annual General Meeting will be paid to those Members whose names appear in the Register of Members of the Company or as a beneficial owner in the records of the Depositories (Central Depository Services India) Limited and National Securities Depository Limited) as on 21" September, For U.P. Stock and Capital Limited

Date: 06.09.2024 Prem Bahadur Singh Place: Kanpur (Chief Executive Officer) Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND ON A POLL TO VOTE INSTEAD OF HIM/HER SELF AND THE PROXY NEED NOT BE AMEMBER OF THE COMPANY, The instrument appointing the proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of A person can act as a proxy on behalf o

Members not exceeding fifty (50) and holding in the aggregate not more than ten percent (10%) of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting ights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or member.

[See Regulation - 15(1)(a)] / 16(3) DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, CHANDIGARH (DRT-2) 1st Floor, SCO 33-34-35, Sector-17A, Chandigam, (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also) CASE NO. OA/466/2022 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of

(1) M/s Excel Consultancy and Others D/W/S/O Sh Gaurav Khanna M/s Excel Consultancy Proprietorship Firm #Unity No. A-016, Florence Abode, Sushant Lok Phase III, Gurugram Haryana Through its Proprietor Shri Gaurav Khanna, Gurgaon, Harvana Also at; M/s Excel Consultancy, Flat No F 90C Second Floor Sushunt Lok Phase III Sector 57 Gurugram Gurgaon, Haryana Also at: M/s Excel Consultancy, Basement F-545 Industrial Area Sector 75 SAS Nagar Mohali Punjab Sahibzada Ajit Singh Nagar Mohali / Ajitgarh, Punjab Also at: Flat No 62A Ground Floor Sunrise Enclave Sector 127 Kharar Mohali Punjab Sahibzada Ajit Singh Nagar/Mohali/Ajitgarh, Punjab

No. A-016 Florence Abode Sushant Lok Phase III Gurugram Gurgaon, Haryana WHEREAS, OA/466/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar or

Rs. 53,34,122/- (application along with copies of documents etc. annexed).

by the applicant under serial number 3A of the original application;

other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale

application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 02/09/2024.

financialexp.epapr.in New Delhi



# नतीजा पूर्व सर्वे पर नियंत्रण की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नतीजा पूर्व सर्वे को नियंत्रित करने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमुर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे राजनीतिक हित याचिका करार देते हुए कहा कि देश में शासन चलने दें और चुनाव की गाथा को बंद करें।

याचिका बीएल जैन द्वारा दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है। अब चुनाव के दौरान क्या होता है इसकी गाथा बंद करें और अब देश में शासन शुरू करें।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को संभालने में सक्षम है और अदालत चुनाव आयोग को नहीं चला सकती। बीएल जैन ने

महिला पुलिस अधिकारी ने इमारत से कूद कर जान दी

इंदौर, 6 सितंबर। इंदौर में एक महिला पुलिस अधिकारी ने

शुक्रवार को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) की बहुमंजिला

आवासीय इमारत से कथित तौर पर छलांग लगाकर जान दे दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस

आयुक्त (एसीपी) आशीष पटेल ने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र

स्थित पीटीसी में सुबेदार के पद पर तैनात नेहा शर्मा (32) ने इस

संस्थान के परिसर की बहुमंजिला आवासीय इमारत से कथित तौर

पर छलांग लगाकर जान दे दी। उन्होंने बताया कि शर्मा की कथित

आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल सका है और पुलिस का

NAM SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC350531

Regd. Off: 213, ARUNACHAL BUILDING, 19, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001 Ph. 011-23731122, E-mail: compliance@namsecurities.in

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that 30" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on

Monday, September 30, 2024 at 10:30AM, at Kiran Farms, W-10D, Western Avenue, Sainik

Farms, New Delhi 110062 to transact the business contained in the Notice of the said AGM. In

terms of Sections 101 and 136 of the Companies Ac, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice & Annual Report for the year 2023-24

have been sent through electronic mode by the Company to those shareholders who have

registered their email-ids with the Depositories of the company and the same is also made

Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members &

Share Transfer Books shall remain closed from 24.09.2024 to 30.09.2024 (both days inclusive) in

view of AGM of the Company. Notice is also given that the Company is providing e-voting facility.

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and regulation 44

of SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has

engaged the services of NSDL as the Authorized agency. The remote E-voting facility shall commence on September 27, 2024 at 10.00 A.M. (IST) and ends on September 29, 2024 at 5.00

The e-voting system shall be disabled thereafter. The Record date for the purpose of e-voting is

Members may use e-voting facility during e-voting period by using User ID and Password which

will be intimated separately to their registered email ID/Address. For any clarifications on e-

दल मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है। ( भाषा )

available on the Company's website at www.namsecurities.in.

याचिका में कहा गया था कि नतीजा पूर्व सर्वे प्रसारित किए जाने से निवेशकों को प्रभावित किया गया। इसके चलते चार जून को नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण ३१ लाख करोड़ का नुकसान हुआ।

जनहित याचिका में कई चुनाव-सर्वेक्षण एजंसियों और समाचार चैनलों को पक्षकार बनाया था। मीडिया घरानों और उनकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि नतीजा पूर्व सर्वे प्रसारित किए जाने से निवेशकों को प्रभावित किया गया। इसके चलते चार जून को नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। नतीजा पूर्व सर्वे की शुरुआत

1980 में भारतीय मीडिया से हुई। इसी के बाद से भारतीय मीडिया चुनाव के बाद से सर्वे करने लगा। दूरदर्शन ने 1996 में नतीजा पूर्व सर्वे शुरू किया था। चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद जब मतदाता अपना वोट डालकर निकल रहे होते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं उन्हें ही नतीजा पूर्व सर्वे कहते हैं।

1998 में चुनाव आयोग ने ओपिनियन और नतीजा पूर्व सर्वे पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। उसके बाद 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की मांग उठी। बाद में कानून में संशोधन किया गया और संशोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, नतीजा पर्व सर्वे नहीं दिखाए जा सकते।

### र) बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Baroda

दरियागज, 3631, नेताजी सुभाष रोड़, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1) देखे

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने विलीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के लाथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता मैसर्स श्री बालाजी पेपर ओवरसीज प्रोप श्री सचिन गोयल पुत्र श्री बांके लाल गोयल और गारंटर (1) श्रीमती सरोज गोयल पत्नी श्री बांके लाल गोयल, (2) श्रीमती श्वेता गोयल पत्नी श्री सौरभ गोयल, (3) श्रीमती सपना गोयल पत्नी श्री सचिन गोयल को दिनाक 29.06.2024 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 4,59,45,758.86 (रु. चार करोड़ उनसठ लाख पैतालीस हजार सात सौ अहावन और पैसे छियासी मात्र) दिनांक 28.06.2024 तक और दिनांक 29.06.2024 से संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, प्लस लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति मुगतान करने को कहा गया था।

ऋणघारक राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 05.09.2024 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एलदुद्वारा चक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन--देन **बैंक ऑफ बढ़ीदा**; शाखा दरियागंज शाखा दिल्ली, के प्रभार वास्ते रू 4,59,45,758.86 (रु. चार करोड़ उनसठ लाख पैतालीस हजार सात सौ अट्ठावन और पैसे छियासी मात्र) दिनांक 28.06.2024 तक प्लस दिनांक 27.06.2024 तक ब्याज सहित और दिनांक 28.06.2024 से संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, प्लस लागत, प्रभार एवं खर्चें इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट प्रा. नं. 2 (जो ब्लॉक ए के पीछे की ओर पड़ता है) मृतल पर, (बिना छत के अधिकार के) जिसका कवर्ड क्षेत्रफल

1830 वर्ग फीट लगभग, उक्त प्लॉट नं. 5 और 5-ए के भाग पर वर्णित सम्पत्ति में से, खसरा नं. 128 और 129 में से, जोकि भामाशाह मार्ग मौजा / गांव राजपुर छावनी दिल्ली के क्षेत्र में, नीचे की भूमि का आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और अविभाज्य हिस्सा (जिसे आगे संपत्ति कहा जाएगा) प्रवेश / मार्ग / सीढ़ी / लिपट की सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ उक्त भवन के बेसमेंट तल पर घरेलू सामान भंडारण स्थान और भवन के फ्लैट में अन्य सामान्य सुविधाएं संयुक्त रूप से स्वामित्व में (1) श्रीमती सरोज गोयल पत्नी श्री बांके गोयल (2) श्रीमती सपना गोयल पत्नी श्री सचिन गोयल (3) श्रीमती खेता गोयल पत्नी श्री सौरभ गोयल, संपत्ति का क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर, चौहदी: पूरब में - उक्त संपत्ति का शेष भाग (अर्थात् फ्लैट नं. 2), पश्चिम में — — सामान्य खुला स्थान और अन्य संपत्ति, उत्तर में - - सामान्य खुला स्थान और अन्य संपत्ति, दक्षिण में -सामान्य खुला स्थान और

दिनांक : 05.09.2024, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

voting, members may contact RTA, Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd at 31 Floor 99 Madangir, behind local shopping center, New Delhi-110062 Tel-011-29961281/83. For: Nam Securities Limited Place: New Delhi (Neha Gupta) Date: 06.09.2024

ारोसे का प्रतीक

पजाब नशनल बक

September 23, 2024

Company Secretary

punjab national ban ...the name you can BANK upon! /A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

सर्किल सस्त्र कार्यालय : अलीगढ कार्यालय पता : साई विहार, सामने मदन पैलेस, ग्राम तलासपुर कलां, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001, ई-मेल : cs8183@pnb.co.in, coali\_samd@pnb.co.in

जैसा कि वित्तीय आस्तियों के प्रवर्तन एवं प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना(ओं) की तिथि/कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा उस ब्याज

के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा।

l		प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची						
	क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	सूचना चिपकाकर कब्जे की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि तक बकाया ग्रिश	
	1.	होलीगेट मथुरा	जगवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह, लक्ष्मी देवी पत्नी जगवीर सिंह, सुखवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह, कृष्णा देवी पत्नी सुखवीर सिंह और सोनवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह	लक्ष्मी देवी पुत्री जगवीर सिंह, जगवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह, कृष्णा देवी पत्नी सुखवीर सिंह, सुखवीर सिंह पुत्र पूरन सिंह के नाम आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट संख्या–56 पर स्थित है जो मौजा रांची बांगर तहसील और जिला मथुरा में खसरा संख्या–80 का हिस्सा है, ओंकारेश्वर आवासीय कॉलोनी के अंदर, क्षेत्रफल 195.09 वर्ग मीटर है और इसकी सीमा निम्नानुसार है:- पूर्व-प्लॉट संख्या–75 पिश्चम-सड़क 12 मीटर चौड़ी उत्तर-प्लॉट संख्या–55 पर नेत्रपाल सिंह का मकान दक्षिण-प्लॉट संख्या–57	04.04.2024	31.08.2024	रु.35,04,462.43 (रुपये पैंतीस लाख चार हजार चार सौ बासठ और तैंतालीस पैसे मात्र) + 01.04.2024 से ब्याज + अन्य शुल्क	
	2.	होलीगेट मथुरा	दीपिका सोनी पत्नी आशीष सोनी और आशीष सोनी पत्नी रामजी लाल सोनी	दीपिका सोनी पत्नी आशीष सोनी और आशीष सोनी पुत्र रामजी लाल सोनी के नाम आवासीय फ्लैट संपत्ति का समस्त भाग, फ्लैट संख्या-एन/ए-708, सातवीं मंजिल श्री राधा वैली के अंदर मौजा गोविंदपुर, तहसील और जिला मथुरा, क्षेत्रफल-87.33 वर्ग मीटर और सीमाएं निम्नानुसार हैं: - पूर्व-आसमान तक खुला, पश्चिम-फ्लैट गेट, उत्तर-सामान्य क्षेत्र, दक्षिण-आसमान तक खुला	18.03.2024	31.08.2024	रु.14,61,914.00 (रुपये चौदह लाख इकसठ हजार नौ सौ चौदह मात्र) +01.03.2024 से ब्याज + अन्य शुल्क	

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

Union Bank (A Govt. of India Undertaking) भारत सरकार का उपक्रम

एराएएम शाखा, लखनक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी मंजिल, शारदा टावर, कपूरथला, अलीमज, लखनक–226024, उत्तर प्रदेश इमेल:- ubln0578720@unionbankofindia.bank

#### मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत)

प्रतिष्ति हित (प्रवर्तन), 2002 के नियम होह) के परन्तुक सपतित विलीय अस्तियों का प्रतिष्तिकरण और पुनगर्तन तथा प्रतिष्ति हित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अवल जारितयाँ के विक्रय हेत् ई—नीलामी विक्रय नोटिस।

सर्वसरमस्य को विशेषकर ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीये वर्णित अवल सम्परितया प्रतिभृति के रूप में हमारे वैक के परस दृष्टिकवक / बबक है जिसका साकेतिक 🗸 भीतिक कब्जा युनियन बैंक के प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विकय दिनांक 26,09,2024 (समय: ब्रोपडर: 12:00 वर्ज से साथ 08:00 वजे छक) यहे होने वाली ई-नीलामी में "जहाँ है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार" पर नीचे वर्णित ऋगियों एवं जमानतदारों र कावन्तित उनकी देनदारी की वसली के लिए पनियन वैक ऑफ इंडिया (सरसित लेनदार) के द्वारा किया जायेगा। आरक्षेत धनसक्षि एव ईएमडी राशि नीचे वर्णित है।

	वीलामी दिवांक व समयः 26 सितामा	लामी की वेबसाइट http://www. 2024, दोपहर: 12:00 बजे से सा				सहित)
illi H	ऋषी एवं जमानकर्ताओं का नाम और पता	ई-नीलामी हेतु सम्पत्तिमाँ का निवरण	<ol> <li>आरक्षित मूल्य</li> <li>ई.एम.ठी.</li> <li>बढ़ी हुई धनरा</li> </ol>	नान एवं सम्पर्ध तुत्र	ब्याज एवं अन्य सर्च कें साथ नकाया घनशारा धर	भार क विवरण कव्या सांकेतिक भौतिक
1.	<ol> <li>श्री अमर सोनकर पुत्र स्व. परशुराम सोनकर, 115/43, प्रसियारी मण्डी कीसर दाग, मुल्यू लक्षका (प्रोपवाईटर/जरणी)</li> </ol>	21-ए. वार्ग मुल्लू थाना, कंसरवान, वार्र विवाजी, लक्षनत-220001, श्री जीतेन्द्र सोनकर पुत्र स्व. परशुराम सोनकर एव श्री असर सोनकर पुत्र स्व. परशुराम	2. *i. 3,35,000/- 3. *i. 33,500/-	प्राधिकृत अधिकारी सं विगशीनुसार     अी पाजीव कृगार वर्मा / १६६६४४४४४४४ अ. अ.क.१०६७४४४४४४४ अ. अ.क.१०६७४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४	45,33,564.25 (स्थयं पैरालीस लाख रोतीस हजार प्रांग सी	प्राप्तिक् अभिका को अन् सङ्गान न राजिता
2	<ol> <li>मेसर्स बायु एसोसिएट्स (प्रोप: श्री संतोष कुमार पुत्र श्री नंद किसोप) पता: प्राम गलेगपुर निकट आम गंडी सुल्तानपुर रोड पास्ट अमेती लखनऊ –222125 जलर प्रवेश, प्रताद मकान न 115, ग्राम मिसफावादा निकट आम गंडी पोस्ट जमेडी तहसील– मेहनतालगंज उत्तर प्रदेश (ऋणी) 2, श्री नंद किसोर पुत्र श्री सगदूलारे.</li> </ol>	सास्थिक व्यक्त प्लीट- गाटा संख्या ११5, ब्रोजकल-0.378 हेक्ट्रेयर का भाग, ब्रोजकल 228 हेक्ट्रेयर, ग्राम वारशुवा, नोहनतालगंज, तखनऊ, उत्तर प्रवेश, श्री संतोष कुमार पुत्र श्री नंद किशोर के स्वागित्व में, ब्रोजकल 2280 वर्ग मी, वीहद्वी-पूर्वः लिक मार्ग, परिचम- श्रीवतात का खेत, उत्तर- श्री अलोक ग्रमी	2. %, 5,94,000/- 3. %, 59,400/-	1. प्राविकृत अविकास सं विमर्जानुसार 2. श्री राजीत कुमार वर्मा / १५५५४४४४४४४ 3.ubm0578720@union barkafndia bark 4. श्रीमती सोमा / २८११८७१६४	20,79,269.75 (रूपये वीच लाख उनावी इजार वो सी उनसार एवं पैसा प्रचारतार मार्थ) मांग सूबना विलाङ 24.10.2019 के	प्राधिक् अध्यक्ष को अन् सङ्गान न सर्वदित
	मक्कन नंबर 115, बाम मसिकजादा, क्विट जाम गरी, फोस्ट अमेटी, तहसील- मोहनलालगंध, उत्तर प्रदेश	DO SON BROWN STREET, S			अनुसार और उत्त पर सामें कर ब्याज, शुल्क और सामदा।	
3.	<ol> <li>श्री दीषक मीढ पुत्र श्री प्रसान दरा गील, पता १: ३/०१२ विकास नगर, लक्ष्मनऊ, उत्तर प्रदेश पता र प्लीट नंबर १३। परिवर्गी भाग, खसरा नंबर १५ (मिन), महियादं बस्की का तालाब, लखनऊ उत्तर</li> </ol>	125 (गिन), बाग- शिव्यांत् मरगना- महाना् तहसील- मी.जं.टी. जिला-	2. %. 2,71,800/- 3. %. 27,100/-	विमातीन्तुसार 2. श्री राजीय कुमार वर्मी / हड्डस्ट्रायप्रहाड 3. ubi n 0578720क्ट	29,21,665.60 (रुपए उनतीश लाख प्रकीस हजार छह सी पंसठ और पैसे साठ	पाणिक् अधिका को अन संशान न
		क्षेत्रफलः 83.643 वर्ग मीटर, संपत्ति का स्वागित्व —श्री दीपक बौद्ध पुत्र श्री पराग दत्त बौद्ध, चीहद्दी (विक्रम पत्र के अनुसार):-पूर्व — अन्य प्लॉट, परिचम- मकान सत्ती सिंह, उत्तर-20		unionbankofindia bank ६. सुभी विशास्त्रा वर्गा/ इराज्यस्थार	711 WEST PROPERTY OF STREET	सावंगी
	1— श्री किशोर कुमार पाल, 610/22 ए वंशव नगर मीठापुर रोव. लखनक, उत्तर प्रदेश 226020 (ऋणी) 2— सुश्री मनीमा पाल, 610/22 ए कंशव नगर सीवापुर रोव. लखनक, उत्तर प्रवेश 226020 (प्राणी) 3— श्री वशिष्य वर्मा पुत्र शंकर प्रसाद, एलडी—174 वेक्टर एफ, एलडीए कॉलोनी शनि मंदिर के पास कानपुर रोव लखनक (जमानवकर्ता)	केशव नगर, सीतापुर रोत, ससनक उत्तर प्रदेश, संगत्ति का बीजकल 1467,00 वर्ग भीट, संयत्ति श्री किशोर कुमार पाल के स्वामित्व में, चौहद्दी:—पूर्व: 20 पीट रोत, पश्चिम: साली सहक, स्रतर: श्री पाण्डोड का मकान, प्रद्रीण: रोत 20 चीट	2. 苓. 5,27,400/- 3. 钬. 52,740/-		(रूपये छियातीस शाख तेईस झवार चीवीस एवं देशे बाठ मार्चा जाम सदना	सामेठि
5.	1) गेवार्स मुला गोबाइल्स, प्रोम. शिवार्गव रस्तोगी, पता थक तहमदपुर नजूत, घटावर के पीछे, तयबरेती, उ.घ229001 (ऋणी) 2) श्री शिवा नद रस्तोगी गुत्र श्री रविनंद रक्तोगी, प्रता प्रकार, तंतर एक ८५	अनेदान नगर छजलापुर, परमन्त्र चहनीत व जिला-रावनरेती छटार प्रदेश-229001, श्रोजण्यस 126.50 वर्ग मीटर, श्री स्विनंद रस्तोगी के स्वामित्व	2. 〒. 5,20,000/- 3. 〒. 52,000/-	विवसन्तिसार २. की राजीव जुनार वर्षा /8584884263	(स्पये जनतीस लाळ्	
	अंबेडकर नगर, रायबरेती, च.प्र229010 (ज.पी./ प्रोपसईटर) 3)श्री रवि गंद कुमार रस्तोगी पुत्र श्री शिव कुमार रस्तोगी, पत्ता भवनन नवर 851/13 अंबेडकर नगर, रायबरेती, च.प्र229010 (जमानतवर्ता) 4) श्री रितेश कुमार रस्तोगी पुत्र श्री जपन्नाथ प्रसाद रस्तोगी, पता : 113( मालसाना, जंबरपंज, रायबरेती, ए.प्र. 229901 (जमानतक्ती)	(अब राहुत का नकान्य दास्त्रण— रास्त्रा 15 फीट खड़िया चेंत्र, पूर्य— 12 फीट संस्त्र, पर्तिचय— इत्रिकरन का क्षेत्र (अब सासाव)		€.ओ आनुस्र औवास्तव / 7651883917	२०२२ क अनुसार जार चस पर आगे का भ्याज, शुल्क और लागत।	with
	1) श्री मनोज पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश संद्र पाण्डेय, पता १ टी-१/००४, एरिसको इटर्निया, रीजापुर रोज, लखनत, उ.प्र -226021, पता 2: 27-ज्यान नगर मोहम्मदपुर राजी निकट शंकर कॉन्वेट स्कृत कंचन विहारी मार्ग लखनत, उत्तर प्रदेश - 220022 2) श्रीमाठी श्रवेता सोहहनी पतनी श्री मनोज पाण्डेय, पता १: टी-१/००४, एरिसको इटर्निया सीलापुर रोज, लखनत, उ.प्र -220021, पता 227-कंचन नगर मोहम्मदपुर साती, निकट शावर कॉन्वेट स्कृत, जपन विहारी मार्ग लखनक, उत्तर प्रदेश - 226022	छठी मजिल, एर्ल्डको इटर्निया, सीतापुर तेव, लवनक, उसर प्रदेश-२,१०६१, संपति के गासिकः श्री मनोज पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश भंद्र पाण्डेय और श्रीमती रवेता खोडानी पत्नी श्री मनोज पाण्डेय क्षेत्रफल- कवर्ड एरिया का प्रत वर्ग मीटर, सुपर एरिया 100.97 वर्ग मीटर, चौहद्दी:-पूर्व सुली जगह परिचम काँरेकार, उत्तरः खुली जगह दक्षिण: खुली जगह	2. %. 6,60,000/- 3. <del>%</del> . 66,000/-	विमर्शानुसार 2. बी राजीय सुमार गर्मा / 8554889283 3. ub+n 0578720@ uniocharkofinda.bark	(रूपवे जनालीश लाख, जनवासी हजार, एक सी सातर एवं पेरो पंदह माड) मांग	पाधिक् अधिका संगे अन् संग्राम = मंशिय

र्ञान-लाइन नीलामी में भाग लेने के लिए इबक्क बोलीचाताओं के मास वैध ई-मेल आईबी और शक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। Security interest (Enforcement) Rule: 2002 के प्रावधानों के अनुसार पिक्री की नियम और राहों का कठाई से पालन करना होगा।

Security Interest (Enforcement) Rule 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के लन्तर्गत 15 दिन की बिक्री सूचना

प्राधिकृत कविकारी, गृनिगन बैंक ऑफ इंदिया

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, नोएडा, एसएच–12,

प्रथम तल, गामा शॉपिंग सेन्टर-गामा-।

ग्रेटर नोएडा-201308, जिला गौतम बृद्ध नगर

ई—मेंल : cs8290@pnb.co.in

इसे Security Interest (Enforcement) Rule: 2002 के निवम छोत) समितित नियम छ(१) के अन्तर्गत राक्त तिथि को की जा रही ई— मीलामी 🗸 निकी के लामन्य में उत्तर ऋष्ट के नकारा रहि। वाले ऋषियाँ 🖊 जनानतकतोत्रों को जारी किया हुआ मोटिस भी माना जाउँ।

रुपान: तरानक

#### पंजाब मेशनल बैंक punjab national bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon

देनांक: 04.09.2024

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

Ų		प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची								
	क्र. सं.	शाखा का नाम	<ul> <li>A) सरकासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि</li> </ul>	अचल सम्पत्तियों का विवरण —	A) आरबित मूल्य	नीलामी की	आर आमधन्द्रत			
		खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का	B) बकाया सारा	वस्तर/ स्वामा पर मान	करने की अंतिम तिथि) तिथि	क। तिथि एवं				
	-2390		C) सरफासी अधिनियन 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	(सम्पत्तियों के बंधककर्ता)		समय				
1		नाम एवं पता	D) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/एचनात्मक	. 4x W	C) बाला वृद्धि शाश	300.9	अधिकारी का नाम			
1		शाखाः सेक्टर-पीआई, ग्रेटर नोएडा (डी.नं. 161310)	A) 06.04.2021	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 398		23-10-2024	ज्ञात नहीं /			
		उधारकर्ताः श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री भगवत सिंह, पताः 1. फ्लैट नंबर 398, तीसरी मंजिल, ओमीक्रॉन 1ए, पॉकेट—सी, ग्रेटर नोएडा, जिला—	el tres tilitale teres i man an artest da	टी.एफ. (तृतीय तल) ब्लॉक—सी, सैक्टर—ओमिक्रॉन—1ए, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, यह		पूर्वीह 11.00 बजे से अर्पाह	सुभाष चन्द्र जाटव मो. नं.			
		गौतमबुद्ध नगर, युपी		3.08.2021 सम्पत्ति श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागवत सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 31 वर्ग मी., चौहदी: उत्तर परब में – लीज	491 (1 514)	04.00 बजे	9121866087			
		<ol> <li>गांत-बुद्ध नगर, यूपा</li> <li>गांव- कनारसी, पी.ओ- बिलासपुर, जिला- गौतमबुद्ध नगर, यूपी</li> </ol>	C) 19.08.2021		(C) v. 10,000/-	18339	100000000000000000000000000000000000000			
		<ol> <li>और फ्लैट नंबर डी–57, ओमीक्रॉन 11, ग्रेटर नोएडा, जिला–</li> </ol>	DV uniaktikus	प्लान के अनुसार, उत्तर पश्चिम में - लीज प्लान के						
		गौतमबुद्ध नगर, यूपी		अनुसार, वर्डिण पूरब में – लीज प्लान के अनुसार, वर्डिण पश्चिम में – लीज प्लान के अनुसार						

नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट http://ebkray.in के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : https://eBkray.in और www.pnbindia.in देखें। (5) सभी सांविधिक बकाया / अटेंडेंट शुल्क / पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार साविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में खतंत्र पूछताछ करें। सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 05.09.2024, स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ीदा

Bank of Baroda

तिथि : 06.09.2024 स्थान : अलीगढ़

शाखा – आर औ एस ए आर बी, ईस्ट दिल्ली पता- ८७.६, प्रथम रात्र, डीबी गुप्ता मार्ग, रामगगर, पहाडुगंज, गई दिल्ही 110055. ಕ್ರಸ್ಟ್ SAREDL@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1) देखे

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा, आर ओ एस ए आर बी, ईस्ट दिल्ली का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत ख्यारकर्ता श्री मानवेन्द्र मनोहर बिक्रम, पुत्र श्री अवण कुमार दुबे, (1) ई-474, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, मंडावली, फजलपुर, पूर्वी दिल्ली—110092 और: (2) फ्लैंट नं. 1604, डोर नं. / मकान नं. डी—1604, 16वीं मंजिल, टावर डी, एनसीआर वन, सेक्टर-95, गुडगांव, हरियाणा-122001 को दिनांक 24.05.2024 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रू 68,99,529.56 (रु. अंडसठ लाख निन्यान्वे हजार पाँच सौ उनतीस और पैसे छप्पन मात्र) दिनांक 19.05.2024 तक और दिनांक 20.05.2024 से संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, प्लस लागत, प्रमार एवं खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक उक्त सुधना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक / गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 05.09.2024 को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा - आर ओ एस ए आर बी, ईस्ट दिल्ली, के प्रभार वास्ते रू 68,99,529.56 (रु. अडसठ लाख निन्यान्वे हजार पाँच साँ उनतीस और पैसे छप्पन मात्र) दिनांक 19.05.2024 तक और दिनांक 20.05.2024 से संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, प्लस लागत, प्रभार एवं खर्चे इत्यादि पूर्ण चुकौती की तिथि तक के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत स्रक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 1604, डोर नं./मकान नं. डी—1604, 16वीं मंजिल, टोंवर डी, एनसीआर वन, सेक्टर—95, गुरुगांव, हरियाणा — 122001 में स्थित, कुल क्षेत्रफल 1130 वर्ग फीट, चीहरी: पूरव में – टॉवर सी, पश्चिम में — लिपट के बाद मार्ग, उत्तर में — पहीट नं. 1603, दक्षिण में — पहीट नं. 1601

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा



दिनांक : 06-09-2024, स्थान : ग्रेटर नोएडा



www.readwhere.com